

## 'हिमांजलि' पत्रिका अंक-26 हेतु रचनाएँ आमंत्रित

'हिमांजलि' हिन्दी में उच्चस्तरीय शोध को बढ़ावा देने की दिशा में संस्थान की अर्द्धवार्षिक पत्रिका है, जिसमें आलेख, निबंध, कविता, कहानी पुस्तक एवं फिल्म समीक्षा आदि प्रकाशित की जाती हैं।

**'हिमांजलि' अंक-26 (जुलाई-दिसंबर 2022) हेतु निम्न वर्णित निर्देशों के अंतर्गत रचनाएँ आमंत्रित हैं-**

- (1) रचनाओं को 2000 शब्दों और पुस्तक समीक्षा को 1000 शब्दों तक ही सीमित रखें। पुस्तक समीक्षा के लिए ऐसी पुस्तक का चयन करें, जो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो और जिसका प्रकाशन गत दो वर्षों के भीतर हुआ हो। संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षाएँ प्राथमिकता के साथ स्वीकार की जाएंगी।
- (2) सामग्री अनिवार्यतः वर्ड फाइल में यूनिकोड/कृतिदेव/शिवा मीडिया फॉन्ट (साइज 15) में ही भेजें। केवल पीडीएफ या हस्तलिखित रचनाएँ स्वीकार्य नहीं हैं। वर्ड फाइल के साथ पीडीएफ भी भेज सकते हैं।
- (3) शोध आलेख या निबंध में एंडनोट (एमएलए/शिकागो/हार्वर्ड) ही इस्तेमाल करें। इटैलिक या अन्य कोई फॉर्मेटिंग नहीं करें। फॉन्ट कनवर्जन के दौरान यह बदल जाएगी। ग्रंथ सूची की आवश्यकता नहीं है।
- (4) हिमांजलि में चंद्र बिंदु (कँ) और नुक्ते (ख, ग, ज़) प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रेषित रचनाओं में इनका प्रयोग अपेक्षित है।
- (5) अंतिम पृष्ठ पर लेखक अपनी संस्थागत सम्बद्धता के साथ अपने संक्षिप्त परिचय एवं अपने पते, ई-मेल और मोबाइल नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।
- (6) अंक-26 के लिए रचनाएं 31 अक्टूबर 2022 तक संपादक के पास पहुँच जानी चाहिए।
- (7) रचनाएँ सर्वथा मौलिक और अप्रकाशित होनी चाहिए। रचनाकार रचना के मौलिक और अप्रकाशित होने का प्रमाण पत्र भी दें।
- (8) रचनाओं के चयन में संपादक-मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।
- (9) रचनाएँ [himanjali@iias.ac.in](mailto:himanjali@iias.ac.in) ई-मेल पर प्रेषित करें।

संपादक